



## नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड

North Eastern Electric Power Corporation Limited

(भारत सरकार का उद्यम) (A Government of India Enterprise)

ब्रुकलैंड कम्पाउंड, लोअर न्यू कॉलोनी, शिलांग - 793003, मेघालय

Brookland Compound, Lower New Colony, Shillong – 793003, Meghalaya

### शिक्षुता (अप्रैंटिसिशप) प्रशिक्षण के लिए विज्ञापन

नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड शेड्यूलड “ए” ‘मिनी रत्न’ श्रेणी -। विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत भारत सरकार का एक प्रमुख केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है। यह निगम जल व ताप दोनों तरह की विद्युत परियोजनाओं की योजना, डिजाइन व क्रियान्वयन के साथ-साथ सौर व पवन ऊर्जा स्थापित करने हेतु अग्रसर है। निगम अपने विभिन्न संयंत्रों/परियोजनाओं/स्थापनाओं के लिए शिक्षुता अधिनियम 1961 के तहत निम्नलिखित ट्रेडों में एक वर्ष के लिए शिक्षुता (अप्रैंटिसिशप) प्रशिक्षण हेतु 46 (छियालीस) प्रशिक्षुओं को नियोजित करने का इच्छुक है :

क्र.सं.	अप्रैंटिस की श्रेणी	न्यूनतम शैक्षिक योग्यता	सीटों की संख्या	मासिक वेतन
1.	तकनीकी अप्रैंटिस (इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा)	<p>क) राज्य सरकार द्वारा स्थापित राज्य परिषद या तकनीकी शिक्षा बोर्ड द्वारा इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा।</p> <p>ख) विश्वविद्यालय द्वारा इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा।</p> <p>ग) उपरोक्त (क) और (ख) के समकक्ष राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान द्वारा इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा।</p> <p>घ) उपरोक्त (क), (ख), (ग) में उल्लेखित अनुसार डिप्लोमाधारी छात्र जो अंतर्वर्ती पाठ्यक्रम (सेंडिंग कोर्स) के तहत प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।</p> <p style="text-align: right;">31 जुलाई, 2019 या उससे पहले।</p>	<p><b>कुल संख्या - 34</b></p> <p>1. असम गैस आधारित विद्युत संयंत्र (एजीबीपीपी) = 20 तकनीकी अप्रैंटिस (वैद्युत/यांत्रिक शाखा)</p> <p>2. अगरतला गैस टरबाइन संयुक्त चक्रीय विद्युत संयंत्र (एजीटीसीसीपीपी) = 10</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 6 तकनीकी अप्रैंटिस (सिविल शाखा)</li> <li>• 4 तकनीकी अप्रैंटिस (वैद्युत/यांत्रिक शाखा)</li> </ul> <p>3. त्रिपुरा गैस आधारित विद्युत संयंत्र (टीजीबीपीपी) = 4 तकनीकी अप्रैंटिस (वैद्युत/यांत्रिक शाखा)</p>	रुपये 15000/-
2.	ट्रेड अप्रैंटिस	किसी राज्य सरकार / केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से अनुमोदित आईटीआई ट्रेड सर्टिफिकेट कोर्स	<p><b>कुल संख्या - 12</b></p> <p>1. असम गैस आधारित विद्युत संयंत्र (एजीबीपीपी) = 9</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 बॉयलर अटेंडेंट</li> <li>• 4 इलेक्ट्रीशियन</li> <li>• 3 लाइनमैन</li> </ul> <p>2. अगरतला गैस टरबाइन संयुक्त चक्रीय विद्युत संयंत्र (एजीटीसीसीपीपी) = 2 बॉयलर अटेंडेंट</p> <p>3. शिलांग = 1 इलेक्ट्रीशियन</p>	रुपये 14877/-

## I. आवेदन के लिए पात्रता मानदंड :

- उम्मीदवार पूर्वान्तर भारत का निवासी होना चाहिए।
- उम्मीदवार के पास आधार कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस/पैन कार्ड/मतदाता पहचान पत्र/पासपोर्ट होना चाहिए जो ऑनलाइन पंजीकरण के लिए आवश्यक है।
- आयु सीमा: 30-06-2019 को अधिकतम आयु 28 वर्ष परंतु 18 वर्ष से कम नहीं। भारत सरकार के नियमों के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछङ्ग वर्ग/दिव्यांग व्यक्तियों/भूतपूर्व सैनिक के लिए आयु में छूट दी गई है।
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछङ्ग वर्ग/दिव्यांग व्यक्ति/आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए आरक्षण, भारत सरकार के मौजूदा नियमों के अनुसार होगा।

## II. चयन प्रक्रिया :

- इंजीनियरिंग डिप्लोमा/आईटीआई कोर्स (जैसा भी मामला हो) में प्राप्त अंकों के अनुसार योग्यता के आधार पर चयन किया जाएगा। अधिक संख्या में आवेदक होने की स्थिति में प्रबंधन के पास 100 अंकों की लिखित परीक्षा आयोजित करने का अधिकार होगा और उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक के आधार पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा।
- चयनित उम्मीदवारों की सूची [www.neepco.co.in](http://www.neepco.co.in) पर उपलब्ध कराई जाएगी। कॉललेटर केवल उनके पंजीकृत ईमेल के माध्यम से भेजे जाएंगे।

## III. आवेदन कैसे करें :

उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा और आवेदन का कोई अन्य माध्यम स्वीकार नहीं किया जाएगा।

चरण ।


- तकनीकी अपेंटिस (इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा) -

(क) उम्मीदवारों को स्वयं को राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रशिक्षण योजना में [www.mhrdnats.gov.in](http://www.mhrdnats.gov.in) के माध्यम से ऑनलाइन नामांकन के द्वारा व्यावहारिक प्रशिक्षण बोर्ड के साथ नामांकित/पंजीकृत होना चाहिए और सफल नामांकन के बाद उत्पन्न मान्य नामांकन आईडी को योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद तीन वर्षों के लिए मान्य रखना होगा।

- ट्रेड अप्रेंटिस के लिए (आईटीआई उत्तीर्ण)

(क) उम्मीदवार [www.apprenticeship.gov.in](http://www.apprenticeship.gov.in) पर लॉग-इन करें।

(ख) अपरेंटिस टैप पर क्लिक करें



नीपको के लिए आवेदन  
करें (E02161700001)

## चरण ॥

- नीपको में प्रशिक्षु प्रशिक्षण (तकनीशियन अपरेंटिस और ट्रेड अपरेंटिस दोनों के लिए) हेतु आवेदन करने के लिए, आवेदक को आवेदन जमा करने के बाद सिस्टम से उत्पन्न अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंटआउट लेना होगा और निम्नलिखित संबंधित दस्तावेज जैसे प्रमाण पत्र, मार्कशीट, ट्रेड सर्टिफिकेट, ट्रेड लाइसेंस, आयु प्रमाण (एचएसएलसी प्रमाणपत्र या जन्म प्रमाण पत्र), जाति/पीडब्ल्यू प्रमाण पत्र, आदि की फोटो प्रतियों को स्पीड पोस्ट के माध्यम से उप-महाप्रबंधक (मा.सं.) भर्ती, नीपको लि., ब्रुकलैंड कंपाउंड, लोअर न्यू कॉलोनी, शिलांग - 793003, मेघालय के पास भेजें जिससे कि वह 09 मार्च, 2020 इस कार्यालय में पहुंच जाए। .....

### सामान्य निदेश :

- ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पहले विस्तृत विज्ञापन और निर्देश पढ़ें।
- कोई आवेदन शुल्क आवश्यक नहीं है।
- आवश्यक योग्यता से संबंधित दस्तावेज जैसे पास सर्टिफिकेट, सभी मार्कशीट, ट्रेड सर्टिफिकेट, ट्रेड लाइसेंस, आयु प्रमाण-पत्र (एचएसएलसी सर्टिफिकेट या जन्म प्रमाण-पत्र), जाति/पीडब्ल्यूडी प्रमाण-पत्र आदि को ऑनलाइन अपलोड करना होगा।
- वे अभ्यर्थी जो पहले ही इस प्रकार के प्रशिक्षण/एक वर्ष या उससे अधिक के अनुभव प्राप्त कर चुके हैं, अप्रेंटिसिप अधिनियम के अनुसार प्रशिक्षण प्राप्त करने के पात्र नहीं हैं।
- अभ्यर्थी जो अभी भी अपने पाठ्यक्रम पूरा कर रहे हैं या अंतिम परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे हैं, आवेदन करने के पात्र नहीं हैं।
- प्रशिक्षु अधिनियम, शिक्षुता प्रशिक्षण के बारे में जानकारी के लिए [www.apprenticeship.gov.in](http://www.apprenticeship.gov.in) पर लॉग इन करें।
- चयन परीक्षा (यदि कोई हो) या प्रशिक्षण कार्यक्रम में रिपोर्टिंग के लिए उम्मीदवारों को कोई टीए/डीए का भुगतान नहीं किया जाएगा।
- उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने पंजीकृत ई-मेल आईडी को परामर्श, अर्थात् कॉल लेटर/निदेश आदि प्राप्त करने के लिए परिणाम घोषित होने तक सक्रिय रखें।
- 28 फरवरी, 2020 को ऑनलाइन आवेदन की प्राप्ति बंद कर दी जाएगी।

### शिड्यूल :

आवेदन के ऑनलाइन पंजीकरण का समापन	28-02-2020 (शुक्रवार)
प्रशंसापत्र और दस्तावेजों के साथ भरे हुए आवेदन पत्र की प्राप्ति की अंतिम तिथि	09-03-2020 (सोमवार)